



## शराब सेल्समैन से लूट करने वाले तीन शातिर दबोचे

- तीन दिन के अंदर थाना ग्वालटोली पुलिस ने खोली घटना
- पकड़े गए अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं
- सेल्समैन की बाइक में पीछे से मारी थी वैन से टक्कर
- टक्कर लगने के बाद सेल्समैन से लूटे थे करीब डेढ़ लाख रुपए

कानपुरा शराब के सेल्समैन की बाइक में वैन से टक्कर मारकर ₹145000 लूटने वाले शातिर अभियुक्तों को थाना ग्वालटोली पुलिस ने दबोच लिया है। घटना के महज तीन दिन के अंदर ही घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने तीन शातिर अभियुक्तों को वारदात में प्रयुक्त की गई वैन के साथ दबोच लिया है। पकड़े गए तीनों अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं और पूर्व में भी उन पर कई मुकदमे दर्ज रहे हैं।

घटनाक्रम के मुताबिक थाना ग्वालटोली क्षेत्र में एक मोटर साईकिल सवार और शराब के सेल्समैन सन्तोष वर्मा की दुर्घटना कर उसके पास से एक रुपयो से भरा बैग लूट लिया था। दिनांक 18.01.2023 को रात्रि के समय 22.30 बजे अज्ञात लुटेरो के द्वारा एक लाख पैतालीस हजार की लूट गयी थी। जिसके संबन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 010/2023 धारा 392 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस घटना की जांच करते हुए अज्ञात लुटेरो को शनिवार रात को गंगा बैराज से आगे उन्नाव जाने वाली रोड पर देशी शराब के ठेके के पास चौकी क्षेत्र मंगलपुर से 03 नफर अभियुक्तगण 01- सूरज मिश्रा पुत्र रामविलास मिश्रा निवासी पनकी गंगा गंज भाग-3 म0न0 304 जी- ब्लाक थाना पनकी कानपुर नगर उम्र 23 वर्ष 02- अमन सिंह उर्फ अन्शू पुत्र जग्गा उर्फ जगदीश निवासी जानकीपुरम सेक्टर-33/11 थाना जानकीपुरम जनपद लखनऊ उम्र 20 वर्ष 03- महबूब पुत्र जावेद निवासी जानकी पुरम सेक्टर 33/835 थाना जानकीपुरम जनपद लखनऊ उम्र 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। जिनके पास से एक कार जिसका नम्बर यूपी 32 RN 2155 है, लूटी गयी नगदी के 40000 रुपये व एक अदद तमंचा देशी 315 बोर व एक अदद जिन्दा 315 कारतूस व तीन अदद मोबाइल व एक अदद पर्श जिसमें एक अदद पैन कार्ड, आधार कार्ड, डेबिट कार्ड बरामद किये गये अभियुक्तगणों से पूछताछ में उसके द्वारा जुर्म कबूल किया गया।

### नाम पता अभियुक्त:

**01-** सूरज मिश्रा पुत्र रामविलास मिश्रा निवासी पनकी गंगा गंज भाग-3 म0न0 304 जी- ब्लाक थाना पनकी कानपुर नगर उम्र 23 वर्ष

### आपराधिक इतिहास अभियुक्त सूरज मिश्रा

- 1) मु0अ0सं0 10/2023 धारा 394/411 भा0द0वि0 थाना ग्वालोटली कानपुर नगर
- 2) मु0अ0सं0 011/2023 धारा 3/25 आम्स एक्ट थाना ग्वालटोली कानपुर नगर
- 3) मु0अ0सं0 134/16 धारा 302/364/201/120बी भादवि थाना पनकी कानपुर नगर

**02-** अमन सिंह उर्फ अन्शू पुत्र जग्गा उर्फ जगदीश सिंह निवासी जानकीपुरम सेक्टर-33/11 थाना जानकीपुरम जनपद लखनऊ उम्र 20 वर्ष

**आपराधिक इतिहास अभियुक्त अमन सिंह**

- 1) मु0अ0स0 10/2023 धारा 394/411 भा0द0वि0 थाना ग्वालटोली कानपुर नगर
- 2) 02-मु0अ0सं0 19/2015 धारा 393 भादवि थाना गोविन्द नगर कानपुर नगर
- 3) 03-मु0अ0सं0 32/2015 धारा 392/411 भादवि थाना गोविन्दनगर कानपुर नगर
- 4) 04-मु0अ0सं0 44/2016 धारा 41/411/414 भादवि थाना फजलगंज कानपुर नगर
- 5) 05-मु0अ0सं0 25/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रायपुरवा कानपुर नगर
- 6) 06-मु0अ0सं0 25/19 धारा 307 भादवि थाना महाराजपुर कानपुर नगर
- 7) 07-मु0अ0सं0 26/19 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना महाराजपुर कानपुर नगर

**03-** महबूब पुत्र जावेद निवासी जानकी पुरम सेक्टर 33/835 थाना जानकीपुरम जनपद लखनऊ उम्र 22 वर्ष

आपराधिक इतिहास अभियुक्त - महबूब

- 1) मु0अ0स0 10/2023 धारा 394/411 भा0द0वि0 थाना ग्वालटोली कानपुर नगर

**बरामदगी का विवरण-** एक तमंचा देशी 315 बोर, एक जिन्दा कारतूस 315 बोर, तीन मोबाइल, लूट के चालीस हजार रुपये व एक पर्स जिसमें एक पैन कार्ड, आधार कार्ड, डेबिट कार्ड व एक मारुति ईको कार

**गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:** एसएचओ जैनेन्द्र सिंह तोमर प्रभारी निरीक्षक, निरीक्षक जय प्रकाश यादव, उ0नि0 मुकेश कुमार, उ0नि0 आलोक कुमार मिश्रा, हे0का0 मो0 सारिक, का0 अमित यादव, का0 निर्देश गौतम, का0 अनुज चौधरी शामिल रहे।